

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2018 — भाद्रपद 9, शक 1940

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2018

क्रमांक 01/03/निर्वा. नामा./पुनरीक्षण-18/2017-18/3282. — छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01-01-2018 के संदर्भ में आयोजित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या -23/CG/2018 (Special) दिनांक 31 अगस्त, 2018 के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुब्रत साहू)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2018 — 9 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

संख्या 23/छ0ग0/2018 (विशेष) :- यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 7 मई, 2018 के अपने पत्र संख्या 23/पत्र/प्रकार्या/इ.आर.डी-ई आर/2018 के द्वारा 01 जनवरी, 2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ राज्य की निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यतः, राज्य में प्रारूप नामावलियां, 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) को प्रकाशित कर दी गई थी; और

यतः, छत्तीसगढ़ राज्य में दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से 31 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) तक नियत की गई थी; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि को 7 सितम्बर, 2018 (शुक्रवार) तक और आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए ;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 01 जनवरी, 2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, निर्वाचक नामावलियों के चल रहे द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख को 7 सितम्बर, 2018 (शुक्रवार) तक विस्तारित करता है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 31st August, 2018 — 9 Bhadrapada, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 23/CG/2018 (Special), .— Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1st January, 2018 as the qualifying date, of Chhattisgarh State, vide its letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, Dated 07th May, 2018; and

Whereas, the draft rolls were published on 31st July, 2018 (Tuesday) in the State; and

Whereas, the period for filing claims & objections in Chhattisgarh State was from 31st July, 2018 (Tuesday) to 31st August, 2018 (Friday); and

Whereas, the Election Commission has reviewed the progress of revision process in the state and decided that the period for filing claims & objections should be further extended up to 7th September, 2018(Friday);

Now, therefore, the Election Commission in exercise of the power conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electoral Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies in the state of Chhattisgarh, the period of filing claims & objections upto 7th September, 2018 (Friday) for the ongoing Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1st January, 2018 as the qualifying date.

By Order,

Sd/-

(NARENDRA. N. BUTOLIA)

Principal Secretary.